



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 ज्येष्ठ 1947 (श0)

(सं0 पटना 1023) पटना, मंगलवार, 3 जून 2025

सं० 2/सी0-03-30132/1996-19222/सा0प्र0  
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

2 दिसम्बर 2024

स्व० देवेन्द्र प्रसाद सिंह (सेवानिवृत्त बि०प्र०से०), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा के पदस्थापन काल में प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-84 दिनांक 04.01.2000 द्वारा "दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक की शास्ति एवं निलंबन अवधि में जीवन-निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिये जाने" का आदेश निर्गत है। निर्गत दंडादेश में इनके निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में उल्लेख नहीं है। सामान्यतया ऐसे मामलों में निलंबन अवधि को पेंशन प्रयोजनार्थ गणना किये जाने का प्रावधान है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा स्व० सिंह को निलंबन अवधि (दिनांक-02.09.1997 से 28.12.1999 तक) की विनियमन करते हुए उक्त अवधि को पेंशन प्रयोजनार्थ गणना किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार स्व० देवेन्द्र प्रसाद सिंह (सेवानिवृत्त बि०प्र०से०), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा को निलंबन अवधि का विनियमन करते हुए उक्त अवधि को पेंशन प्रयोजनार्थ गणना किये जाने का आदेश दिया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राजीव रंजन दास,  
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1023-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>